



VASTUKALA
Unlocking Excellence

www.vastukala.co.in


MSME Reg No: UDYAM-MH-18-0083617

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

CIN: U74120MH2010PTC207869

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

Valuation Report of the Immovable Property



Details of the property under consideration:

Name of Owner : **Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya**

Residential Flat No. 406, 4th Floor, Building No C-4, "The Rutu Estate", Village - Kolshet, Taluka - Thane, District - Thane, Thane (West), PIN Code - 400 607, State - Maharashtra, India.

Latitude Longitude : 19°14'49.6"N 72°58'44.8"E

Intended User:

**Bank Of Baroda
Kapurbawdi Branch**

Shop No 4 to 8, Shop No 4 to 8, Near Cine Wonder Maill, Thane West
Maharashtra 400610



Thane : 101, 1st Floor, Beth Shalom, Near Civil Hospital, Thane (W) - 400601, (M.S),INDIA
Email :thane@vastukala.co.in | Tel : 80978 82976 / 90216 05621

Our Pan India Presence at :

📍 Nanded 📍 Thane 📍 Ahmedabad 📍 Delhi NCR
📍 Mumbai 📍 Nashik 📍 Rajkot 📍 Raipur
📍 Aurangabad 📍 Pune 📍 Indore 📍 Jaipur

Regd. Office

B1-001, U/B Floor, BOOMERANG, Chandivali Farm Road,
Powai, Andheri East, **Mumbai** :-400072, (M.S), India

📞 +91 2247495919

✉️ mumbai@vastukala.co.in

🌐 www.vastukala.co.in

VALUATION OPINION REPORT

This is to certify that the property bearing Residential Flat No. 406, 4th Floor, Building No C-4, "The Rutu Estate", Village - Kolshet, Taluka - Thane, District - Thane, Thane (West), PIN Code - 400 607, State - Maharashtra, India belongs to **Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya**.

Boundaries	:	Building	Flat
North	:	Rutu Estate Road	Flat No. 405 & 404
South	:	Building No. D - 7	Lift
East	:	Building No. D - 8	Wall
West	:	Rutu Estate Internal Road	Passage

Considering various parameters recorded, existing economic scenario, and the information that is available with reference to the development of neighbourhood and method selected for valuation, we are of the opinion that, the property premises can be assessed for this particular purpose at **₹ 65,73,840.00 (Rupees Sixty Five Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Forty Only)**.

The valuation of the property is based on the documents produced by the concern. Legal aspects have not been taken into considerations while preparing this report.

Hence certified

For **VASTUKALA CONSULTANTS (I) PVT. LTD.**

Manoj Chalikwar

Director

Digitally signed by Manoj Chalikwar
DN: cn=Manoj Chalikwar, o=Vastukala
Consultants (I) Pvt. Ltd., ou=Mumbai,
email=manoj@vastukala.org, c=IN
Date: 2025.02.08 17:39:52 +05'30'

Avinal
Auth. Sign.



Manoj Chalikwar

Govt. Reg. Valuer

Chartered Engineer (India)

Reg. No. IBBI/RV/07/2018/10366

Bank Of Baroda Empanelment No.: ZO:MZ:ADV:44:620

Encl.: Valuation report

Thane : 101, 1st Floor, Beth Shalom, Near Civil Hospital, Thane (W) - 400601, (M.S),INDIA
Email :thane@vastukala.co.in | Tel : 80978 82976 / 90216 05621

Our Pan India Presence at :

📍 Nanded 📍 Thane 📍 Ahmedabad 📍 Delhi NCR
📍 Mumbai 📍 Nashik 📍 Rajkot 📍 Raipur
📍 Aurangabad 📍 Pune 📍 Indore 📍 Jaipur

Regd. Office

BI-001, U/B Floor, BOOMERANG, Chandivali Farm Road,
Powai, Andheri East, **Mumbai** :-400072, (M.S), India

📞 +91 2247495919

✉️ mumbai@vastukala.co.in

🌐 www.vastukala.co.in



Vastukala Consultants India Pvt. Ltd.

101, 1st Floor, B Wing, Beth Shalom, Near Civil Hospital, Thane (W) - 400 601

To,

**The Branch Manager,
Bank Of Baroda****Kapurbawdi Branch**Shop No 4 to 8, Shop No 4 to 8, Near Cine Wonder Maill,
Thane West Maharashtra 400610**VALUATION REPORT (IN RESPECT OF FLAT)**

General	
1	Purpose for which the valuation is made : To assess Fair Market Value of the property for Housing Loan Purpose.
2	a) Date of inspection : 14.01.2025
	b) Date of which the valuation is made : 08.02.2025
3	List of documents produced for perusal: I) Copy of Article of Agreement Dated 06.02.2006 between Rutu Developers Private Limited(The Promoter) And Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya(The purchaser). II) Copy of Commencement Certificate V.P. No..88 / 387 / TMC / TDD / 2124 Dated 18.03.2002 issued by Thane Municipal Corporation. III) Copy of Occupancy Certificate No.88 / 387 / TMC / TDD / 68 Dated 02.05.2006 issued by Thane Municipal Corporation. IV) Copy of Previous Valuation Report Dated 01.03.2019 issued by D. R. Shetty & Associates.
4	Name of the owner(s) and his / their address (es) with Phone no. (details of share of each owner in case of joint ownership) : Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya Residential Flat No. 406, 4 th Floor, Building No C-4, " The Rutu Estate ", Village - Kolshet, Taluka - Thane, District - Thane, Thane (West), PIN Code - 400 607, State - Maharashtra, India. <u>Contact Person :</u> Mr. Prafulla (Owner's Representative) Mobile No. 9819212750 Joint Ownership Details of ownership share is not available
5	Brief description of the property (Including Leasehold / freehold etc.) : The property is a Residential Flat located on 4 th Floor. The composition of Residential Flat is 1 Bedroom + Living Room + Kitchen + Toilet + WC + Passage. (1 BHK) The property is at 7.3 Km distance from Thane Railway Station.
5a.	Total Lease Period & remaining period (if leasehold) :
6	Location of property



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



a)	Plot No. / Survey No.	:	New Survey No - 114/5, 116/1, 116/3, 116/4, 117/P, 118/1, 118/3, 118/5, 118/2, 118/7, 118/6, 119, 120/2, 120/5, 120/17, 120/19, 120/21,	
b)	Door No.	:	Residential Flat No. 406	
c)	C.T.S. No. / Village	:	Village - Kolshet	
d)	Ward / Taluka	:	Taluka - Thane	
e)	Mandal / District	:	District - Thane	
f)	Date of issue and validity of layout of approved map / plan	:	As Occupancy Certificate is received may be assumed that the construction is as per sanctioned plan.	
g)	Approved map / plan issuing authority	:		
h)	Whether genuineness or authenticity of approved map/ plan is verified	:	N.A.	
i)	Any other comments by our empanelled valuers on authentic of approved plan	:	N.A.	
7	Postal address of the property	:	Residential Flat No. 406, 4 th Floor, Building No C-4, " The Rutu Estate ", Village - Kolshet, Taluka - Thane, District - Thane, Thane (West), PIN Code - 400 607, State - Maharashtra, India.	
8	City / Town	:	City - Thane (West)	
	Residential area	:	Yes	
	Commercial area	:	No	
	Industrial area	:	No	
9	Classification of the area	:		
	i) High / Middle / Poor	:	Middle Class	
	ii) Urban / Semi Urban / Rura	:	Urban	
10	Coming under Corporation limit / Village Panchayat / Municipality	:	Village - Kolshet Thane Municipal Corporation	
11	Whether covered under any State / Central Govt. enactments (e.g., Urban Land Ceiling Act) or notified under agency area/ scheduled area / cantonment area	:	No	
12	Boundaries of the property	:	As per site	As per Document
	North	:	Rutu Estate Road	Details not available
	South	:	Building No. D - 7	Details not available
	East	:	Building No. D - 8	Details not available
	West	:	Rutu Estate Internal Road	Details not available

13	Dimensions of the site	:	N. A. as property under consideration is a Residential Flat in a building.	
		:	As per the Deed	As per Actuals
	North	:	Details not available	Flat No. 405 & 404
	South	:	Details not available	Lift
	East	:	Details not available	Wall
	West	:	Details not available	Passage
13.2	Latitude, Longitude & Co-ordinates of Flat	:	19°14'49.6"N 72°58'44.8"E	
14	Extent of the site	:	<p>Carpet Area in Sq. Ft. = 410.00 (Area as per Site measurement)</p> <p>Carpet Area in Sq. Ft. = 430.00 (Area As Per Article of Agreement)</p> <p>Built Up Area in Sq. Ft. = 516.00 (Carpet Area + 20%)</p>	
15	Extent of the site considered for Valuation	:	Carpet Area in Sq. Ft. = 430.00 (Area As Per Article of Agreement)	
16	Whether occupied by the owner / tenant? If occupied by tenant since how long? Rent received per month.	:	<p>Tenant Occupied</p> <p>Tenant Name : Mr. Ajendra Deshmukha</p>	
II	APARTMENT BUILDING			
1.	Nature of the Apartment	:	Residential	
2.	Location			
	C.T.S. No.	:		
	Block No.	:	-	
	Ward No.	:	-	
	Village / Municipality / Corporation		Village - Kolshet, Thane Municipal Corporation	
	Door No., Street or Road (Pin Code)	:	Residential Flat No. 406, 4 th Floor, Building No C-4, " The Rutu Estate ", Village - Kolshet, Taluka - Thane, District - Thane, Thane (West), PIN Code - 400 607, State - Maharashtra, India	
3.	Description of the locality Residential / Commercial / Mixed	:	Residential	
4.	Year of Construction	:	2006 (As per occupancy certificate)	
5.	Number of Floors	:	Ground + 7 Upper Floors	
6.	Type of Structure	:	R.C.C. Framed Structure	
7.	Number of Dwelling units in the building	:	4 th Floor is having 6 Flats	

8.	Quality of Construction	:	Good
9.	Appearance of the Building	:	Good
10.	Maintenance of the Building	:	Good
11.	Facilities Available		
	Lift	:	2 Lifts
	Protected Water Supply	:	Municipal Water Supply
	Underground Sewerage	:	Connected to Municipal Sewerage System
	Car parking - Open / Covered	:	Open Car Parking
	Is Compound wall existing?	:	Yes
	Is pavement laid around the Building	:	Yes
III	Residential Flat		
1.	The floor in which the Flat is situated	:	4 th Floor
2.	Door No. of the Flat	:	Residential Flat No. 406
3.	Specifications of the Flat		
	Roof	:	R. C. C. Slab
	Flooring	:	Vitrified Tile Flooring
	Doors	:	Teak Wood Door Frame With Flush Shutters
	Windows	:	Powder Coated Aluminium Sliding
	Fittings	:	Concealed plumbing with C.P. fittings. Electrical wiring with concealed
	Finishing	:	Cement Plastering with POP false Ceiling
4.	House Tax		
	Assessment No.	:	Details not available
	Tax paid in the name of	:	Details not available
	Tax amount	:	Details not available
5.	Electricity Service connection No.	:	Details not available
	Meter Card is in the name of	:	Details not available
6.	How is the maintenance of the Flat?	:	Good
7.	Sale Deed executed in the name of	:	Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya
8.	What is the undivided area of land as per Sale Deed?	:	Details not available
9.	What is the plinth area of the Flat?	:	Built Up Area in Sq. Ft. = 516.00 (Carpet Area + 20%)
10.	What is the floor space index (app.)	:	As per TMC norms

11.	What is the Carpet area of the Flat?	:	<p>Carpet Area in Sq. Ft. = 410.00 (Area As per actual site measurement) Carpet Area in Sq. Ft. = 430.00 (Area As Per Article of Agreement)</p> <p>All the above areas are within 4% of the Agreement for Sale Area. The above calculations and detailed measurements taken by us prove that the Agreement for Sale area is not exorbitantly inflated. Hence, valuation is prepared based on the Agreement for Sale area</p>
12.	Is it Posh / I Class / Medium / Ordinary?	:	Ordinary
13.	Is it being used for Residential or Commercial purpose?	:	Residential Purpose
14.	Is it Owner-occupied or let out?	:	Tenant Occupied
15.	If rented, what is the monthly rent?	:	₹ 21,000/- Present rental income per month
IV	MARKETABILITY		
1.	How is the marketability?	:	Good
2.	What are the factors favoring for an extra Potential Value?	:	Located in developed area
3.	Any negative factors are observed which affect the market value in general?	:	No
V	Rate		
1.	After analyzing the comparable sale instances, what is the composite rate for a similar Flat with same specifications in the adjoining locality? - (Along with details / reference of at - least two latest deals / transactions with respect to adjacent properties in the areas)	:	₹ 14000/- to ₹ 16056/- per Sq. Ft. on Carpet Area ₹ 11667/- to ₹ 13380/- per Sq. Ft. on Built Up Area
2.	Assuming it is a new construction, what is the adopted basic composite rate of the Flat under valuation after comparing with the specifications and other factors with the Flat under comparison (give details).	:	₹ 16,000/- per Sq. Ft.
3.	Break – up for the rate	:	
	I. Building + Services	:	₹ 2,500/- per Sq. Ft.
	II. Land + others	:	₹ 13,500/- per Sq. Ft.
4.	Guideline rate obtained from the Registrar's Office for new property (an evidence thereof to be enclosed)	:	₹ 1,24,600/- per Sq. M. i.e. ₹ 11,576/- per Sq. Ft.
	Guideline rate(an evidence thereof to be enclosed)	:	₹ 1,09,286/- per Sq. M. i.e. ₹ 10,153/- per Sq. Ft.
5.	Registered Value(if available)	:	N.A.

VI	COMPOSITE RATE ADOPTED AFTER DEPRECIATION		
a	Depreciated building rate		
	Replacement cost of Flat with Services (v(3)i)	:	₹ 2,500/- per Sq. Ft.
	Age of the building	:	19 years
	Life of the building estimated	:	41 years Subject to proper, preventive periodic maintenance & structural repairs.
	Depreciation percentage assuming the salvage value as 10%	:	28.50%
	Depreciation Ratio of the building		-
b	Total composite rate arrived for Valuation		
	Depreciated building rate VI (a)	:	₹ 1,788/- per Sq. Ft.
	Rate for Land & other V (3) ii	:	₹ 13,500/- per Sq. Ft.
	Total Composite Rate	:	₹ 15,288/- per Sq. Ft.
	Remarks	:	

Details of Valuation:

No.	Description	Qty.	Rate per unit (₹)	Estimated Value (₹)
1	Present value of the Flat	430.00 Sq. Ft.	15,288.00	65,73,840.00
2	Wardrobes			
3	Showcases			
4	Kitchen arrangements			
5	Superfine finish			
6	Interior Decorations			
7	Electricity deposits / electrical fittings, etc.			
8	Extra collapsible gates / grill works, etc.			
9	Potential value, if any			
10	Others / Car Parking			
	Total value of the property			65,73,840.00
	Realizable value of the property			62,45,148.00
	Distress value of the property			52,59,072.00
	Insurable value of the property (516.00 X 2,500.00)			12,90,000.00
	Guideline value of the property (516.00 X 10,153.00)			52,38,948.00

Justification for Price / Rate

The Market Value of the property is based on facts of markets discovered by us during our enquiries, however the government rate value in this case is less than the market value arrived by us. We are of the opinion that the value arrive by us will prove to be correct if an Auction of the subject property is carried out. As far as Market Value in Index II is concerned, it is not possible to comment on same, may be government rates are fixed by sampling during same point of time in part and whereas, Market values change every month.


In most of the cases the actual deal amount or Transaction value is not reflected in Index II because of various Market practices. As Valuer, we always try to give a value which is correct reflection of actual transaction value irrespective of any factors in market.

Method of Valuation / Approach



The sales comparison approach uses the market data of sale prices to estimate the value of a real estate property. Property valuation in this method is done by comparing a property to other similar properties that have been recently sold. Comparable properties, also known as comparables, or comps, must share certain features with the property in question. Some of these include physical features such as square footage, number of rooms, condition, and age of the building; however, the most important factor is no doubt the location of the property. Adjustments are usually needed to account for differences as no two properties are exactly the same. To make proper adjustments when comparing properties, real estate appraisers must know the differences between the comparable properties and how to value these differences. The sales comparison approach is commonly used for Residential Flat, where there are typically many comparables available to analyze. As the property is a Residential Flat, we have adopted Sale Comparison Approach Method for the purpose of valuation .The Price for similar type of property in the nearby vicinity is in the range of ₹ 14000.00 to ₹ 16056.00 per Sq. Ft. on Carpet Area / ₹ 11667.00 to ₹ 13380.00 per Sq. Ft. on BuiltUp Area. Considering the rate with attached report , current market conditions , demand and supply position, Flat size, location, upswing in real estate prices , sustained demand for Residential Flat, all round development of Residential and Commercial application in the locality etc. We estimate ₹15,288.00 per Sq. Ft. on Carpet Area for valuation.

Impending threat of acquisition by government for road widening / publics service purposes, sub merging & applicability of CRZ provisions (Distance from sea-cost / tidal level must be incorporated) and their effect on	
Saleability	Good
Likely rental values in future	₹ 21,000/- Present rental income per month
Any likely income it may generate	Rental Income


Actual Site Photographs




THE RITU ESTATE			
B.D.D. C - 4			
7th FL. 701	MANISH A. UPADHYAY	702	MORAS IYER
703	ROHAN DARKE	704	KAVITA L. ASHRANI
705	MILLER FRANCIS	706	SUDHAKAR A. KADAM
6th FL. 601	ASHOK V. MORE	602	KAMNATHAN S. IYER
603	NAVEEN A. SHARMA	604	RAVJI N. PATEL
605	RAVJI N. PATEL	606	SANJAY B. PAUNIKAR
5th FL. 501	KARPANA N. DHONDE	502	KIRAN E. ERBOYE
503	LAKMAN N. SARARIA	504	SHAMLI N. BOHEKAR
505	MANJI A. NOR	506	MURJI B. BERA
4th FL. 401	ANANDA D. AVHAD	402	NARAYAN S. PATEL
403	SUNTA C. GRATE	404	NARAYAN S. PATEL
405	DAMJI P. PATEL	406	ARKHIT B. DAKYA
3rd FL. 301	P. DAMODARAN	302	VAIHAV H. KESKAR
303	KARPANA N. DHONDE	304	JAVARANI PILLAI
305	POOJA IN LALJI PATEL	306	SAVITA MAHADU MORE
2nd FL. 201	DURGESH S. SINGH	202	SUNANDA R. BHOSLE
203	PRASHANT V. SAWANT	204	PANKAJ P. KALE
205	SURYA KUMAR	206	NYAL P. GALA
1st FL. 101	ANGELLY L. FERNANDES	102	SUDHIR K. SAHOO
103	VYRKE V. RAHATE	104	CHANDRASEKHAR S. BOHARI
105	AMIT K. VETHEKAR	106	SURESH S. KSHORSAGAR
GR.FL. 001	SHERRANGINI A. CHITNIS	002	NANDESH C. AMBOTLIKAR
005	RAKESH SHEKLA	006	AMIT C. KEKADE



Route Map of the property




Note: Red Place mark shows the exact location of the property



Longitude Latitude: 19°14'49.6"N 72°58'44.8"E


Note: The Blue line shows the route to site distance from nearest Railway Station (Thane - 7.3 Km).


Ready Reckoner Rate



**Department of
Registration & Stamps**
Government Of Maharashtra

**नोंदणी व मुद्रांक
विभाग**
महाराष्ट्र शासन





*** Welcome to Valuation of Properties in Maharashtra

Location Details

Select Type: Development Agreement Tenant Occupied Other

Division Name: [Help on Division](#)

District Name: Taluka Name: Village/Zone Name:
Attribute: SubZone Name:
Mahapalika Area:

Open Land	Residence	Office	Shop	Industry	Unit
44000	124600	142100	155300	142100	Square Meter

Stamp Duty Ready Reckoner Market Value Rate for Flat	124600			
Flat Located on 4 th Floor	-			
Stamp Duty Ready Reckoner Market Value Rate (After Increase/Decrease) (A)	1,24,600.00	Sq. Mtr.	11,576.00	Sq. Ft.
Stamp Duty Ready Reckoner Market value Rate for Land (B)	44000			
The difference between land rate and building rate(A-B=C)	80,600.00			
Percentage after Depreciation as per table(D)	19%			
Rate to be adopted after considering depreciation [B + (C X D)]	1,09,286.00	Sq. Mtr.	10,153.00	Sq. Ft.

Multi-Storied building with Lift

For residential premises / commercial unit / office on above floor in multistoried building, the rate mentioned in the ready reckoner will be increased as under:

	Location of Flat / Commercial Unit in the building	Rate
a)	On Ground to 4 Floors	No increase for all floors from ground to 4 floors
b)	5 Floors to 10 Floors	Increase by 5% on units located between 5 to 10 floors
c)	11 Floors to 20 Floors	Increase by 10% on units located between 11 to 20 floors
d)	21 Floors to 30 Floors	Increase by 15% on units located between 21 to 30 floors
e)	31 Floors and above	Increase by 20% on units located on 31 and above floors

Depreciation Percentage Table

Completed Age of Building in Years	Value in percent after depreciation	
	R.C.C Structure / other Pukka Structure	Cessed Building, Half or Semi-Pukka Structure & Kaccha Structure.
0 to 2 Years	100%	100%
Above 2 & up to 5 Years	95%	95%
Above 5 Years	After initial 5 year for every year 1% depreciation is to be considered. However maximum deduction available as per this shall be 70% of Market Value rate	After initial 5 year for every year 1.5% depreciation is to be considered. However maximum deduction available as per this shall be 85% of Market Value rate

Price Indicators

Property	Residential Flat		
Source	https://www.99acres.com/		
Floor	-		
	Carpet	Built Up	Saleable
Area	430.00	516.00	-
Percentage	-	20%	-
Rate Per Sq. Ft.	₹15,116.00	₹12,597.00	-

99acres Buy Enter Locality / Project / Society / Landmark Post property

Home > Property in Thane > Flats for sale in Thane > Flats for sale in Thane West > Flats for sale in Brahmrand > 1 BHK Flats for sale in Brahmrand

Posted on Nov 28, 2024 | Ready to move

₹65 Lac ₹15,116 per sq. ft. **1BHK 1Bath** [Contact Dealer](#)

Estimated EMI ₹ 51,516 Flat/Apartment for Sale in The Rutu Estate, Brahmrand, Thane West [Shortlist](#)

REPA STATUS **NOT AVAILABLE** Website: <https://maharaja.maharashtra.gov.in/>

[Overview](#) [Society](#) [Dealer Details](#) [Price Trends](#) [Registry Record](#) [Society Reviews](#)

Property (0) **Society (9)**

Area
Carpet area: 430 sq. ft.

Price
₹ 65 Lac + Govt Charges & Tax @ 15,116 per sq. ft. [View Price Details](#)

Floor Number
4th of 8 Floors

Configuration
1 Bedroom , 1 Bathroom, No Balcony with Others

Address
The Rutu Estate
Brahmrand, Thane West

Facing
West

Property Age



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Price Indicators

Property	Residential Flat		
Source	magic bricks		
Floor	-		
	Carpet	Built Up	Saleable
Area	436.00	523.20	-
Percentage	-	20%	-
Rate Per Sq. Ft.	₹16,055.00	₹13,379.00	-

magicbricks
Buy ▾ Rent ▾ Sell ▾ Home Loans ▾

Home > Property in Thane > Patlipada > Apartment in Patlipada > 1 BHK > 505 Sq Ft

₹70.0 Lac

EMI - ₹33k | [Get pre-approved loan](#)

BHK Flat For Sale in Rutu Estate, Patlipada, Thane

🛏 1 Bed
🚿 2 Baths
🚗 1 Covered Parking
🏠 Furnished

Carpet Area

436 sqft - 716.055 sqft

Developer

[Rutu Developers](#)

Project

[Rutu Estate](#)

Floor

2 (Out of 7 Floors)

Transaction Type

Resale

Status

Ready to Move

Facing

North - West

Lft

1

Furnished Status

Furnished

Contact Owner

Get Phone No.

👤 Last contact made 3 days ago

More Details

Price Breakup	₹70 Lac
Booking Amount	₹1.0 Lac
Address	D8201,, Patlipada, Thane, Maharashtra
Landmarks	The Property Is Closed to gb road highway and all amenities are nearby



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Sale Instances

Property	Residential Flat		
Source	Index no.2		
Floor	-		
	Carpet	Built Up	Saleable
Area	430.00	516.00	-
Percentage	-	%	-
Rate Per Sq. Ft.	₹14,419.00	₹12,016.00	-

2344536
08-02-2024
Note -Generated Through eSearch Module.For original report please contact concern SRO office.

सूची क्र.2

दुयम निबंधक : दु.नि. ठाणे 9
दस्ता क्रमांक : 2344/2024
नोदणी
Regn:63m

गावाचे नाव : कोलशेत

(1) विलेखाचा प्रकार	करारनामा
(2) मोबदला	6200000
(3) बाजारभाव/भाडेपरतपाच्या बाबतितपट्टाकार आकारणी देतो की पट्टेदार ते समुद करावे	5974570
(4) भू मापन प्लॅटहिसस व घरक्रमांक (असल्यास)	1) पालिकेचे नाव ठाणे म न.पा इतर वर्जन इतर माहिती: सडनिका क्र. 103,घडिला मजला बिल्डिंग नं. डी 4,ट रुनु इस्टेट बिल्डिंग डी 4 को ऑप होसिंग सो लि,पानतीपाडा,डी डी रोड,कोलशेत,ठाणे .. सडनिकेचे एकुण क्षेत्र 47.95 चौ मी बांधीव ((Survey Number : 114/5, 115/1, 116/1,3,4, 117, 118/1 to 7, 119, 120/2,5,10,17, 19,21 ;))
(5) क्षेत्रफळ	47.95 चौ मीटर
(6) आकारणी किंवा जुकी टप्यात असल तेजा	
(7) दस्तऐवज करम देणा-पा,विनुम ठेवणा-पा पध्दकाराचे नाव किंवा टिवाणी न्यायालयाचा नुकुमनामा किंवा आदेश असल्यास,प्रतिवादिचे नाव व पत्ता	1) नाव-के अशोक कुमार वध- 48 पत्ता-प्लॉट नं 103 डी 4 माळा नं - इमारतीचे नाव- ट रुनु इस्टेट ब्लॉक नं- पानतीपाडा रोड नं. डी डी रोड कोलशेत, ठाणे महाराष्ट्र, ठाणे पिन कोड- 400607 पॅन नं- AHRPA3274E 2) नाव- सतवण अशोक वध- 45 पत्ता-प्लॉट नं 103 डी 4 माळा नं - इमारतीचे नाव- ट रुनु इस्टेट ब्लॉक नं- पानतीपाडा रोड नं. डी डी रोड कोलशेत, ठाणे महाराष्ट्र, ठाणे पिन कोड- 400607 पॅन नं- ASKRL9973C
(8) दस्तऐवज करम देणा-पा पध्दकाराचे व किंवा टिवाणी न्यायालयाचा नुकुमनामा किंवा आदेश असल्यास,प्रतिवादिचे नाव व पत्ता	1) नाव- नरेश्वर सतु वध- 36 पत्ता-प्लॉट नं - माळा नं - इमारतीचे नाव - ब्लॉक नं- किशोर गज अंगुल, ऑडिसा, रोड नं. - अशिसा ANGUL पिन कोड- /59127 पॅन नं- CJCPS6811C 2) नाव- विपदरौनी सतु वध- 27 पत्ता- प्लॉट नं - माळा नं - इमारतीचे नाव - ब्लॉक नं- किशोर गज अंगुल, ऑडिसा, रोड नं. - अशिसा अंगुल पिन कोड- /59127 पॅन नं- UPPS3365M
(9) दस्तऐवज करम दित्याचा दिनांक	05/02/2024
(10) दस्त नोदणी केल्याचा दिनांक	05/02/2024
(11) अनुक्रमांक खंड व पृष्ठ	2344/2024
(12) बाजारभावप्रमाणे मुद्रांक शुल्क	434000
(13) बाजारभावप्रमाणे नोदणी शुल्क	30000
(14) टीप	
मुद्रांकनामासाठी विचारल घेतलेला तपशील	
मुद्रांक शुल्क आकारवना निवडलेला अनुच्छेद :-	(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Sale Instances

Property	Residential Flat		
Source	Index no.2		
Floor	-		
	Carpet	Built Up	Saleable
Area	600.00	720.00	-
Percentage	-	%	-
Rate Per Sq. Ft.	₹14,000.00	₹11,667.00	-

635536

04-02-2024

Note -Generated Through eSearch Module For original report please contact concern SRO office

सूची क्र. 2

द्वयम निबंधक : दु.नि. ठाणे 9

दस्त क्रमांक : 635/2024

नोडणी :

Regn.60m

गावाचे नाव : कोलशेत

(1) विलेखना प्रकार	करारनामा
(2) मीटरदला	8400000
(3) बाजारभाव/भाडेपट्टावाच्या बाबतिलपट्टाकार आकारणी देणे की पट्टेदार ते समुद्र करावे	8172856
(4) भू मापन पोटहिसा व घरक्रमांक/असल्यास	1) पालिकेचे नाव/ठाणे म न.पा.इतर वर्णन : इतर माहिती: सदनिका क्र. 704 सातवा मजला विलेखन न. सी 4, टि रतु इन्स्टेट विलेखन न. सी 4, टी 8 को ऑप होसिंग सो लि,पाललीपाठा,जी बी रोड,कोलशेत,ठाणे.. सदनिकेचे एकूण क्षेत्र. 66.91 चौ. मी बांधीव((Survey Number : 114/5, 115/1, 116/1,3,4, 117, 118/1 to 7, 119, 120/2, 3,10,17,19,21.))
(5) क्षेत्रफळ	66.91 चौ मीटर
(6) आकारणी किंवा चुकी देण्यात आलेले तेंका	
(7) दस्तदेवज करून देण- पा/दिनून ठेवण- पा पक्षकाराचे नाव किंवा टिवाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा किंवा अदालत असल्यास,प्रतिवादिचे नाव व पत्ता.	1) नाव- संजय कुमार पाण्डेय वय- 51 पत्ता- जॉईट न. 704, सी 4, माला न. . इमारतीचे नाव- रतु इन्स्टेट ब्लॉक न. पाललीपाठा, रोड न. जी बी रोड, कोलशेत, ठाणे. महाराष्ट्र, ठाणे. पिन कोड-400607 पिन नं.-AMNPP6574H 2) नाव- किरण संजय पाण्डेय वय- 47 पत्ता- जॉईट न. 704, सी 4, माला न. . इमारतीचे नाव- रतु इन्स्टेट ब्लॉक न. पाललीपाठा, रोड न. जी बी रोड, कोलशेत, ठाणे. महाराष्ट्र, ठाणे. पिन कोड-400607 पिन नं.-BMXP99557H
(8) दस्तदेवज करून देण- पा पक्षकाराचे व किंवा टिवाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा किंवा अदालत असल्यास,प्रतिवादिचे नाव व पत्ता.	1) नाव- कविता लालचंद असरानी वय- 76 पत्ता- जॉईट न. 403 विलेखन न. 6, माला न. . इमारतीचे नाव- केज 6, इन्डायन ब्लॉक न. जी बी रोड, रोड न. कोलशेत, ठाणे. महाराष्ट्र, ठाणे. पिन कोड-400607 पिन नं.-AOPAR654P 2) नाव- नीला लालचंद असरानी वय- 44 पत्ता- जॉईट न. 403, विलेखन न. 6, माला न. . इमारतीचे नाव- केज 6, इन्डायन ब्लॉक न. जी बी रोड, रोड न. कोलशेत, ठाणे. महाराष्ट्र, ठाणे. पिन कोड-400607 पिन नं.-AKZPAR236H
(9) दस्तदेवज करून देण्याचा दिनांक	09/01/2024
(10) दस्त नोडणी केल्याचा दिनांक	09/01/2024
(11) अनुक्रमिक खंड व पृष्ठ	635/2024
(12) बाजारभावप्रमाणे मुद्रांक शुल्क	588000
(13) बाजारभावप्रमाणे नोडणी शुल्क	30000
(14) सौर	
मुद्रांकनासाठी विद्यारात घेतलेला तपशील	
मुद्रांक शुल्क आकारताना निवडलेला अनुच्छेद	(i) within the limits of any Municipal Corporation or any Cantonment area annexed to it

As a result of my appraisal and analysis, it is my considered opinion that the value of the above property in the prevailing condition with aforesaid specifications is **₹65,73,840.00 (Rupees Sixty Five Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Forty Only)**. The **Realizable Value** of the above property is **₹62,45,148.00 (Rupees Sixty Two Lakh Forty Five Thousand One Hundred Forty Eight Only)**. The **Distress Value** is **₹52,59,072.00 (Rupees Fifty Two Lakh Fifty Nine Thousand Seventy Two Only)**.

Place : Thane

Date : 08.02.2025

For VASTUKALA CONSULTANTS (I) PVT. LTD.

Manoj Chalikwar

Digitally signed by Manoj Chalikwar
DN: cn=Manoj Chalikwar, o=Vastukala
Consultants (I) Pvt. Ltd., ou=Mumbai,
email=mano@vastukala.org, c=IN
Date: 2025.02.08 17:40:04 +05'30'

Avin

Director

Auth. Sign.

**Manoj Chalikwar**

Govt. Reg. Valuer

Chartered Engineer (India)

Reg. No. IBBI/RV/07/2018/10366

Bank Of Baroda Empanelment No.: ZO:MZ:ADV:44:620

The undersigned has inspected the property detailed in the Valuation Report dated _____
on _____. We are satisfied that the fair and reasonable market value of the property is
₹ _____ (Rupees _____
_____ only).

Date _____

Signature

(Name & Designation of the Inspecting Official/s)

Countersigned

(BRANCH MANAGER)

Enclosures	
Declaration-cum-undertaking from the valuer (Annexure-IV)	Attached
Model code of conduct for valuer - (Annexure V)	Attached

(Annexure-IV)**DECLARATION-CUM-UNDERTAKING**

I, Manoj Chalikwar do hereby solemnly affirm and state that:

- a. I am a citizen of India.
- b. I will not undertake valuation of any assets in which I have a direct or indirect interest or become so interested at any time during a period of three years prior to my appointment as valuer or three years after the valuation of assets was conducted by me.
- c. The information furnished in my valuation report dated 08.02.2025 is true and correct to the best of my knowledge and belief and I have made an impartial and true valuation of the property.
- d. My engineer Vaibhav Bhagat has personally inspected the property on 14.01.2025. The work is not sub - contracted to any other valuer and carried out by myself.
- e. Valuation report is submitted in the format as prescribed by the bank.
- f. I have not been depanelled / delisted by any other bank and in case any such depanelment by other banks during my empanelment with you, I will inform you within 3 days of such depanelment.
- g. I have not been removed / dismissed from service / employment earlier.
- h. I have not been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment
- i. I have not been found guilty of misconduct in my professional capacity.
- j. I have not been declared to be unsound mind
- k. I am not an undischarged bankrupt, or has not applied to be adjudicated as a bankrupt;
- l. I am not an undischarged insolvent.
- m. I have not been levied a penalty under section 271J of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and time limit for filing appeal before Commissioner of Income-tax (Appeals) or Income-tax Appellate Tribunal, as the case may be has expired, or such penalty has been confirmed by Income-tax Appellate Tribunal, and five years have not elapsed after levy of such penalty
- n. I have not been convicted of an offence connected with any proceeding under the Income Tax Act 1961, Wealth Tax Act 1957 or Gift Tax Act 1958 and
- o. My PAN Card number as applicable is AERPC9086P
- p. I undertake to keep you informed of any events or happenings which would make me ineligible for empanelment as a valuer
- q. I have not concealed or suppressed any material information, facts and records and I have made a complete and full disclosure




Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



- r. I have read the Handbook on Policy, Standards and procedure for Real Estate Valuation, 2011 of the IBA and this report is in conformity to the 'Standards' enshrined for valuation in the Part - B of the above handbook to the best of my ability.
- s. I have read the International Valuation Standards (IVS) and the report submitted to the Bank for the respective asset class is in conformity to the 'Standards' as enshrined for valuation in the IVS in 'General Standards' and 'Asset Standards' as applicable. The valuation report is submitted in the prescribed format of the bank.
- t. I abide by the Model Code of Conduct for empanelment of valuer in the Bank. (Annexure V - A signed copy of same to be taken and kept along with this declaration)
- u. My CIBIL Score and credit worthiness is as per Bank's guidelines.
- v. I am a Valuer, who is competent to sign this valuation report.
- w. I will undertake the valuation work on receipt of Letter of Engagement generated from the system (i.e. LLMS / LOS) only.
- x. Further, I hereby provide the following information.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



No.	Particulars	Valuer comment
1	background information of the asset being valued;	The property under consideration is purchased by Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya from Rutu Developers Private Limited vide Article of Agreement dated 06.02.2006.
2	purpose of valuation and appointing authority	As per the request from Bank Of Baroda, Kapurbawdi Branch to assess Fair Market Value value of the property for Housing Loan purpose
3	identity of the valuer and any other experts involved in the valuation;	Manoj Chalikwar - Regd. Valuer Vaibhav Bhagat - Valuation Engineer Rashmi Jadhav - Technical Manager Pratibha Shilvanta - Technical Officer
4	disclosure of valuer interest or conflict, if any;	We have no interest, either direct or indirect, in the property valued. Further to state that we do not have relation or any connection with property owner / applicant directly or indirectly. Further to state that we are an independent Valuer and in no way related to property owner / applicant
5	date of appointment, valuation date and date of report;	Date of Appointment - 10.01.2025 Valuation Date - 08.02.2025 Date of Report - 08.02.2025
6	inspections and/or investigations undertaken;	Physical Inspection done on - 14.01.2025
7	nature and sources of the information used or relied upon;	Market Survey at the time of site visit Ready Reckoner rates / Circle rates Online search for Registered Transactions Online Price Indicators on real estate portals Enquiries with Real estate consultants Existing data of Valuation assignments carried out by us
8	Procedures adopted in carrying out the valuation and valuation standards followed;	Sales Comparative Method
9	restrictions on use of the report, if any;	This valuation is for the use of the party to whom it is addressed and for no other purpose. No responsibility is accepted to any third party who may use or rely on the whole or any part of this valuation. The valuer has no pecuniary interest that would conflict with the proper valuation of the property.
10	major factors that were taken into account during the valuation;	current market conditions, demand and supply position, Residential Flat size, location, upswing in real estate prices, sustained demand for Residential Flat, all round development of commercial and Commercial application in the locality etc.
11	major factors that were not taken into account during the valuation;	-
12	Caveats, limitations and disclaimers to the extent they explain or elucidate the limitations faced by valuer, which shall not be for the purpose of limiting his responsibility for the valuation report.	Attached

Assumptions, Disclaimers, Limitations & Qualifications

Value Subject to Change

The subject appraisal exercise is based on prevailing market dynamics as on **8th February 2025** and does not take into account any unforeseeable developments which could impact the same in the future.

Our Investigations

We are not engaged to carry out all possible investigations in relation to the subject property. Where in our report we identify certain limitations to our investigations, this is to enable the reliant party to instruct further investigations where considered appropriate or where we recommend as necessary prior to reliance. Thane (VCIPL) is not liable for any loss occasioned by a decision not to conduct further investigations.

Assumptions

Assumptions are a necessary part of undertaking valuations. VCIPL adopts assumptions for the purpose of providing valuation advice because some matters are not capable of accurate calculations or fall outside the scope of our expertise, or out instructions. The reliant party accepts that the valuation contains certain specific assumptions and acknowledge and accept the risk of that if any of the assumptions adopted in the valuation are incorrect, then this may have an effect on the valuation.

Information Supplied by Others

The appraisal is based on the information provided by the client. The same has been assumed to be correct and has been used for appraisal exercise. Where it is stated in the report that another party has supplied information to VCIPL, this information is believed to be reliable but VCIPL can accept no responsibility if this should prove not to be so.

Future Matters

To the extent that the valuation includes any statement as to a future matter, that statement is provided as an estimate and/or opinion based on the information known to VCIPL at the date of this document. VCIPL does not warrant that such statements are accurate or correct.

Map and Plans

Any sketch, plan or map in this report is included to assist the reader while visualising the property and assume no responsibility in connection with such matters.

Site Details

Based on inputs received from Client's representative and site visit conducted, we understand that the subject property is Residential Flat, admeasuring **430.00 Sq. Ft. Carpet Area** in the name of **Mr. Arkhit Bairagi Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya**. Further, VCIPL has assumed that the subject property is free from any encroachment and is available as on the date of the appraisal.

Property Title

Based on our discussion with the Client, we understand that the subject property is owned by **Mr. Arkhit Bairagi**



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Dakya & Mrs. Krishna Beni Dakya. For the purpose of this appraisal exercise, we have assumed that the subject property has a clear title and is free from any encumbrances, disputes and claims. VCIPL has made no further enquiries with the relevant local authorities in this regard and does not certify the property as having a clear and marketable title. Further, no legal advice regarding the title and ownership of the subject property has been obtained for the purpose of this appraisal exercise. It has been assumed that the title deeds are clear and marketable.

Environmental Conditions

We have assumed that the subject property is not contaminated and is not adversely affected by any existing or proposed environmental law and any processes which are carried out on the property are regulated by environmental legislation and are properly licensed by the appropriate authorities.

Area

Based on the information provided by the Client's representative, we understand that the Residential Flat, admeasuring **430.00 Sq. Ft. Carpet Area.**

Condition & Repair

In the absence of any information to the contrary, we have assumed that there are no abnormal ground conditions, nor archaeological remains present which might adversely affect the current or future occupation, development or value of the property. The property is free from rat, infestation, structural or latent defect. No currently known deleterious or hazardous materials or suspect techniques will be used in the construction of or subsequent alteration or additions to the property and comments made in the property details do not purport to express an opinion about, or advise upon, the condition of uninspected parts and should not be taken as making an implied representation or statement about such parts.

Valuation Methodology

For the purpose of this valuation exercise, the valuation methodology used is Direct Comparison Approach Method and proposed Highest and Best Use model is used for analysing development potential.

The Direct Comparison Approach involves a comparison of the property being valued to similar properties that have actually been sold in arms - length transactions or are offered for sale. This approach demonstrates what buyers have historically been willing to pay (and sellers willing to accept) for similar properties in an open and competitive market and is particularly useful in estimating the value of the Flat and properties that are typically traded on a unit basis.

In case of inadequate recent transaction activity in the subject micro-market, the appraiser would collate details of older transactions. Subsequently, the appraiser would analyse rental / capital value trends in the subject micro-market in order to calculate the percentage increase / decrease in values since the date of the identified transactions. This percentage would then be adopted to project the current value of the same.

Where reliance has been placed upon external sources of information in applying the valuation methodologies, unless otherwise specifically instructed by Client and/or stated in the valuation, VCIPL has not independently verified that information and VCIPL does not advise nor accept it as reliable. The person or entity to whom the report is addressed acknowledges and accepts the risk that if any of the unverified information in the valuation is incorrect, then this may have an effect on the valuation.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Not a Structural Survey

We state that this is a valuation report and not a structural survey.

Other

All measurements, areas and ages quoted in our report are approximate.

Legal

We have not made any allowances with respect to any existing or proposed local legislation relating to taxation on realization of the sale value of the subject property. VCIPL is not required to give testimony or to appear in court by reason of this appraisal report, with reference to the property in question, unless arrangement has been made thereof. Further, no legal advice on any aspects has been obtained for the purpose of this appraisal exercise.

Property specific assumptions

Based on inputs received from the client and site visit conducted, we understand that the subject property is **Residential Flat**, admeasuring **430.00 Sq. Ft. Carpet Area**.

ASSUMPTIONS, CAVEATS, LIMITATION AND DISCLAIMERS

1. We assume no responsibility for matters of legal nature affecting the property appraised or the title thereto, nor do we render our opinion as to the title, which is assumed to be good and marketable.
2. The property is valued as though under responsible ownership.
3. It is assumed that the property is free of liens and encumbrances
4. It is assumed that there are no hidden or unapparent conditions of the subsoil or structure that would render it more or less valuable. No responsibility is assumed for such conditions or for engineering that might be required to discover such factors.
5. There is no direct/ indirect interest in the property valued.
6. The rates for valuation of the property are in accordance with the Govt. approved rates and prevailing market rates.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



(Annexure-V)

MODEL CODE OF CONDUCT FOR VALUERS

Integrity and Fairness

1. A valuer shall, in the conduct of his/its business, follow high standards of integrity and fairness in all his/its dealings with his/its clients and other valuers.
2. A valuer shall maintain integrity by being honest, straightforward, and forthright in all professional relationships.
3. A valuer shall endeavour to ensure that he/it provides true and adequate information and shall not misrepresent any facts or situations.
4. A valuer shall refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession.
5. A valuer shall keep public interest foremost while delivering his services.

Professional Competence and Due Care

6. A valuer shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
7. A valuer shall carry out professional services in accordance with the relevant technical and professional standards that may be specified from time to time.
8. A valuer shall continuously maintain professional knowledge and skill to provide competent professional service based on up-to-date developments in practice, prevailing regulations / guidelines and techniques.
9. In the preparation of a valuation report, the valuer shall not disclaim liability for his/its expertise or deny his/its duty of care, except to the extent that the assumptions are based on statements of fact provided by the company or its auditors or consultants or information available in public domain and not generated by the valuer.
10. A valuer shall not carry out any instruction of the client insofar as they are incompatible with the requirements of integrity, objectivity and independence.
11. A valuer shall clearly state to his client the services that he would be competent to provide and the services for which he would be relying on other valuers or professionals or for which the client can have a separate arrangement with other valuers.

Independence and Disclosure of Interest

12. A valuer shall act with objectivity in his/its professional dealings by ensuring that his/its decisions are made without the presence of any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly connected to the valuation assignment or not.
13. A valuer shall not take up an assignment if he/it or any of his/its relatives or associates is not independent in terms of association to the company.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



14. A valuer shall maintain complete independence in his/its professional relationships and shall conduct the valuation independent of external influences.
15. A valuer shall wherever necessary disclose to the clients, possible sources of conflicts of duties and interests, while providing unbiased services
16. A valuer shall not deal in securities of any subject company after any time when he/it first becomes aware of the possibility of his / its association with the valuation, and in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or till the time the valuation report becomes public, whichever is earlier.
17. A valuer shall not indulge in 'mandate snatching' or offering 'convenience valuations' in order to cater to a company or client's needs.
18. As an independent valuer, the valuer shall not charge success fee.
19. In any fairness opinion or independent expert opinion submitted by a valuer, if there has been a prior engagement in an unconnected transaction, the valuer shall declare the association with the company during the last five years.

Confidentiality

20. A valuer shall not use or divulge to other clients or any other party any confidential information about the subject company, which has come to his / its knowledge without proper and specific authority or unless there is a legal or professional right or duty to disclose.

Information Management

21. A valuer shall ensure that he/ it maintains written contemporaneous records for any decision taken, the reasons for taking the decision, and the information and evidence in support of such decision. This shall be maintained so as to sufficiently enable a reasonable person to take a view on the appropriateness of his /its decisions and actions.
22. A valuer shall appear, co-operate and be available for inspections and investigations carried out by the authority, any person authorised by the authority, the registered valuers organisation with which he/it is registered or any other statutory regulatory body.
23. A valuer shall provide all information and records as may be required by the authority, the Tribunal, Appellate Tribunal, the registered valuers organisation with which he/it is registered, or any other statutory regulatory body.
24. A valuer while respecting the confidentiality of information acquired during the course of performing professional services, shall maintain proper working papers for a period of three years or such longer period as required in its contract for a specific valuation, for production before a regulatory authority or for a peer review. In the event of a pending case before the Tribunal or Appellate Tribunal, the record shall be maintained till the disposal of the case.



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Gifts and hospitality:

25. A valuer or his / its relative shall not accept gifts or hospitality which undermines or affects his independence as a valuer. Explanation: For the purposes of this code the term 'relative' shall have the same meaning as defined in clause (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
26. valuer shall not offer gifts or hospitality or a financial or any other advantage to a public servant or any other person with a view to obtain or retain work for himself / itself, or to obtain or retain an advantage in the conduct of profession for himself / itself.

Remuneration and Costs.

27. A valuer shall provide services for remuneration which is charged in a transparent manner, is a reasonable reflection of the work necessarily and properly undertaken, and is not inconsistent with the applicable rules.
28. A valuer shall not accept any fees or charges other than those which are disclosed in a written contract with the person to whom he would be rendering service.

Occupation, employability and restrictions

29. A valuer shall refrain from accepting too many assignments, if he/it is unlikely to be able to devote adequate time to each of his/ its assignments.
30. A valuer shall not conduct business which in the opinion of the authority or the registered valuer organisation discredits the profession.

Miscellaneous

31. A valuer shall refrain from undertaking to review the work of another valuer of the same client except under written orders from the bank or housing finance institutions and with knowledge of the concerned valuer.
32. A valuer shall follow this code as amended or revised from time to time.

For VASTUKALA CONSULTANTS (I) PVT. LTD.

Manoj Chalikwar

Digitally signed by Manoj Chalikwar
DN: cn=Manoj Chalikwar, o=Vastukala
Consultants (I) Pvt. Ltd., ou=Mumbai,
email=manoj@vastukala.org, c=IN
Date: 2025.02.08 17:40:13 +05'30'

Arind
Auth. Sign.

Director

Manoj Chalikwar

Govt. Reg. Valuer

Chartered Engineer (India)

Reg. No. IBBI/RV/07/2018/10366

Bank Of Baroda Empanelment No.: ZO:MZ:ADV:44:620



Since 1989

Vastukala Consultants (I) Pvt. Ltd.

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

